



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 184 ]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2002/फाल्गुन 1, 1923

No. 184]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2002/PHALGUNA 1, 1923

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

सुम्बई, 20 फरवरी, 2002

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

( पारस्परिक निधि ) ( संशोधन ) विनियम, 2002

का. आ. 219( अ ).— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ( 1992 का 15 ) की धारा 30 की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

I. ( i ) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ( पारस्परिक निधि ) ( संशोधन ) विनियम, 2002 कहा जा सकेगा।

( ii ) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

II. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ( पारस्परिक निधि ) विनियम, 1996 में :—

1. विनियम 56 में,

( क ) शीर्षक में शब्द "प्रकाशन" के लिए शब्द "डाक प्रेषण" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

( ख ) उप-विनियम ( 1 ) में, शब्दों "विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित किया जायेगा और एक संक्षिप्त स्कीमवार वार्षिक रिपोर्ट" का लोप किया जायेगा।

( ग ) विनियम 56( 2 ) में शब्दों "परन्तु यह और कि पूर्ण संविभाग प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है यदि समाचार पत्रों में पूर्ण लेखे प्रकाशित किये जाते हैं" का लोप किया जायेगा।

( घ ) विनियम 56 के उप-विनियम 3 में शब्द "यदि सार रूप में प्रकाशित की गयी है" के लिए शब्द "उप विनियम ( 1 ) के अनुसार संक्षिप्त सार रूप में डाक से प्रेषित" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[ फा. सं. भप्रविबो/विधि/2834/2002 ]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 20th February, 2002

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS)  
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2002**

**S.O. 219(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations namely :—

I. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2002.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

II. In Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 :—

1. In regulation 56,

- (a) In the heading for the word 'Publication' the word 'Mailing' shall be substituted.
- (b) In Sub-regulation (1), the words "shall be published through an advertisement and an abridged scheme wise annual report" shall be omitted.
- (c) In regulation 56(2) the words "provided further that full portfolio disclosure is not required if the full accounts are published in news papers" shall be omitted.
- (d) In sub regulation 3 of regulation 56 for the word "if published in summary form" the word "mailed in abridged summary form as per sub regulation (1)" shall be substituted.

[F. No. SEBI/LE/2834/2002]

D. R. MEHTA, Chairman